

वित्त मंत्रालय / Ministry of Finance

राजस्व विभाग / Department of Revenue

सीमा शुल्क आयुक्त के कार्यालय, / Office of the Commissioner of Customs कस्टम हाउस नई हारबर एस्टेट / Custom House, New Harbour Estate तूत्कुड्डी — 628 004 / Thoothukudi – 628004.

दूरभाष / Tel: 0461 2352655, 2352633 फैक्स / Fax 0461 2352019

सी. सं. II/39/2/2012-(ओ .एल आई .सी) C.No.II/39/2/2012- (OLIC) दिनांक 23.01.2015 Dated: 23.01.2015

विषय : दिनांक 14 .01 . 2015 को सीमा शुल्क गृह , टुटिकोरिन में आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन सिमिति की 31.12.2014 को समाप्त होनेवाली त्रैमासिक बैठक के कार्यवृत्त - तत्सम्बन्धी ।

Sub: Minutes of the Official Language Implementation Committee Meeting for the Quarter ending 31.12.2014 held on 14.01.2015 at Office of the Commissioner of Customs, Custom House, Tuticorin-Regarding.

दिनांक 31.12.2014 को समाप्त होनेवाली राजभाषा समिति के त्रैमासिक बैठक का आयोजन सीमा शुल्क गृह , ट्टिकोरिन के सम्मेलन कक्ष में दिनांक 14.01.2015 को 11:00 बजे पूर्वाहन में किया गया ।

The Quarterly Meeting of the Official Language Implementation Committee of Custom House, Tuticorin for quarter ending 31.12.2014 was held on 14.01.2015 at 11:00 AM in the Conference Hall of Tuticorin Custom House.

बैठक की अध्यक्षता आयुक्त , सीमा शुल्क गृह द्वारा की गयी , जिसमे निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए।

The meeting was chaired by Commissioner of Customs and was attended by the following officers.

| Name of the Members (Shri/Smt.) No. 1. श्री सुरेश जन्दनवार / Shri Suresh Nandanwar Additional Commissioner 2. श्री एस. ए. उमा शंकर गोंड/ अपर आयुक्त/ Shri Sa.A.Uma Shanker Goud Joint Commissioner 3. श्री पियूष आरद्वाज/ सहायक आयुक्त/ Shri Piyush Bhardwaj Assistant Commissioner 4. श्री विनीद कुमार / सहायक आयुक्त/ Shri Vinod Kumar Assistant Commissioner 5. श्री अजित कुमार / सहायक आयुक्त/ Shri Ajit Kumar Assistant Commissioner 6. श्री औ. स्वामीनाथन/ सहायक आयुक्त/ Shri Ajit Kumar Assistant Commissioner 7. श्री जी. स्वामीनाथन/ सहायक आयुक्त/ Shri G. Swaminathan Assistant Commissioner 8. श्री एस. पतिसामी/ सहायक आयुक्त/ Shri S. Palanichamy Assistant Commissioner 8. श्री एस. पतिसामी/ सहायक आयुक्त/ Shri S. Palanichamy Assistant Commissioner 9. श्री अरूत अशिर् राजानायगम/ सहायक आयुक्त/ Shri S. Palanichamy Assistant Commissioner 10. श्री उत्तर Rajanayagam Assistant Commissioner 11. श्री उत्तर तर्माणन/ प्रशासिक अधिकारी (डी. डी.ओ.)/ Shri L. Lakshmanan AO(DO) 11. श्री उत्तरपाल/ Shri J. Jayapal आधीक्षक / Superintendent 12. श्री एस जावस्वमण्यम / अधीक्षक / Superintendent 13. श्री एस वालसुबमण्यम / अधीक्षक / Superintendent 14. श्री उत्तरपाल/ Shri S. Jebaharan अधीक्षक / Superintendent 15. श्री उत्तरपाल/ Shri J Ramar अधीक्षक / Superintendent 16. श्री एम मुख्यानव्दल/ अधीक्षक / Superintendent 17. श्री एस सुन्दर राजन/ अधीक्षक / Superintendent 18. श्री के व्यवेत/ Shri K Vajravel अधीक्षक / Superintendent 19. श्री तो वान्वेतमनी/ अधीक्षक / Superintendent 19. श्री | - III | | |
|--|----------|------------------------------------|--------------------------------|
| No. 1. श्री सुरेश नन्दनवार / Shri Suresh Nandanwar Additional Commissioner संयुक्त आयुक्त/ Shri Suresh Nandanwar Additional Commissioner संयुक्त आयुक्त/ Shri S.A.Uma Shanker Goud Joint Commissioner अर्थ पर सहायक आयुक्त/ Shri Piyush Bhardwaj Assistant Commissioner सहायक आयुक्त/ Shri Piyush Bhardwaj Assistant Commissioner सहायक आयुक्त/ Shri Vinod Kumar Assistant Commissioner सहायक आयुक्त/ Shri Ajit Kumar Assistant Commissioner सहायक आयुक्त/ Shri Ajit Kumar Assistant Commissioner सहायक आयुक्त/ Shri Ajit Kumar Assistant Commissioner सहायक आयुक्त/ Shri G. Swaminathan Assistant Commissioner सहायक आयुक्त/ Shri G. Nisar Basha Assistant Commissioner सहायक आयुक्त/ Shri S. Palanichamy Assistant Commissioner सहायक आयुक्त/ Shri S. Palanichamy Assistant Commissioner सहायक आयुक्त/ Shri Arul Asir Rajanayagam Assistant Commissioner श्री अरुक्त अशिर राजानायगम/ सहायक आयुक्त/ Shri Arul Asir Rajanayagam Assistant Commissioner श्री एत. लक्ष्मणन/ Shri Arul Asir Rajanayagam Assistant Commissioner श्री एत. लक्ष्मणन/ प्रशाशक्तिक अधिकारी (डी. डी.ओ.)/ AO (DDO) 10. श्री एत. लक्ष्मणन/ Shri J. Jayapal अधीक्षक / Superintendent Shri S. Balasubramaniam 14. श्री आर पन्नीरसेल्वन/ आधीक्षक / Superintendent अधीक्षक / Superintendent Shri S. Sundar Rajan 15. श्री जे रामार/ Shri J Ramar अधीक्षक / Superintendent Shri S. Sundar Rajan 18. श्री के बज्रवेल/ Shri K Vajravel अधीक्षक / Superintendent Shri V. Ganavelmani 19. श्री दी जानवेलमनी/ अधीक्षक / Superintendent Shri V. Ganavelmani अधीक्षक / Superintendent Shri V. Canavelmani अधीक्षक / Superintendent Shri V. Canavelmani अधीक्षक / Superintendent Shri C. Thirumalai Muthu 20. श्री दी आराज्ञप्यम/ अधीक्षक / Superintendent Shri C. Thirumalai Muthu 21. श्री दी आराज्ञप्यम/ अधीक्षक / Superintendent Shri C. Thirumalai Muthu 22. श्री पी सुन्दर स्ति/ | क्रम सं/ | सदस्यों के नाम (श्री/श्रीमती) | पदनाम |
| 1. श्री सुरेश नन्द्रनवार / Shri Suresh Nandanwar Additional Commissioner श्री एस. ए. उमा शंकर गोंड/ संयुक्त आयुक्त/ Shri S.A.Uma Shanker Goud Joint Commissioner और एस. ए. उमा शंकर गोंड/ सहायक आयुक्त/ Shri Piyush Bhardwaj Assistant Commissioner श्री पियुष भारद्वाज/ सहायक आयुक्त/ Shri Piyush Bhardwaj Assistant Commissioner श्री विनोद कुमार / सहायक आयुक्त/ Shri Vinod Kumar Assistant Commissioner सहायक आयुक्त/ Shri Ajit Kumar Assistant Commissioner सहायक आयुक्त/ Shri Ajit Kumar Assistant Commissioner सहायक आयुक्त/ Shri G. Swaminathan Assistant Commissioner सहायक आयुक्त/ Shri G. Nisar Basha Assistant Commissioner सहायक आयुक्त/ Shri G. Nisar Basha Assistant Commissioner श्री एस. पलिसामी/ सहायक आयुक्त/ Shri S. Palanichamy Assistant Commissioner श्री एस. जलस्मणन/ Shri Arul Asir Rajanayagam Assistant Commissioner श्री एस. लक्ष्मणन/ Shri Arul Asir Rajanayagam Assistant Commissioner श्री एस. लक्ष्मणन/ प्रशाशांकिक अधिकारी (डी. डी.ओ.)/ AO (DDO) 10. श्री के जयपाल / Shri J. Jayapal अधीक्षक / Superintendent और एस बालसुक्रमण्यम / अधीक्षक / Superintendent अधीक्षक / Superintendent Shri S. Balasubramaniam 14. श्री आर पन्नीरसेल्वन/ अधीक्षक / Superintendent अधीक्षक / Superintendent Shri R. Paneerselvan 15. श्री एस. मुख्यानन्दन/ अधीक्षक / Superintendent अधीक्षक / Superintendent Shri M. Muruganandam 17. श्री एस. मुख्यानन्दन/ अधीक्षक / Superintendent Shri S. Sundar Rajan 18. श्री के वजवेल/ Shri K. Vajravel अधीक्षक / Superintendent Shri V. Gnanavelmani 19. श्री दी जानवेलमनी/ अधीक्षक / Superintendent Shri V. Gnanavelmani 20. श्री सी सफ्तमें मृथु अधीक्षक / Superintendent Shri C. Thirumalai Muthu 21. श्री दी मारिअप्यन/ अधीक्षक / Superintendent Shri T. Mariappan 22. श्री पी सुन्दर स्त्रिं/ अधीक्षक / Superintendent | | Name of the Members (Shri/Smt.) | |
| Shri Suresh Nandanwar 2. श्री एस. ए. उमा शंकर गौंड/ Shri S.A.Uma Shanker Goud Joint Commissioner औ पियुष आरद्वाज/ Shri Piyush Bhardwaj 4. श्री विनोद कुमार / Shri Vinod Kumar 5. श्री अजित कुमार/ Shri Ajit Kumar 6. श्री जी. स्वामीनायन/ Shri G. Swaminathan 7. श्री जी. लिबार आमा/ Shri G. Nisar Basha 8. श्री एस. पलिसामी/ Shri S.Palanichamy 9. श्री अरूत अशिर् राजानायगम/ Shri Aul Asir Rajanayagam 10. श्री चल. लक्ष्मणन/ Shri L. Lakshmanan 11. श्री एस लास्त्रमण्यम / Shri S. Balasubramaniam 14. श्री उरामार/ Shri S. Jebaharan 15. श्री उरामार/ Shri S. Jeanerselvan 16. श्री उरामार/ Shri S. Superintendent 17. श्री उर्त तक्ष्मण्यम / Shri Aul Asir Rajanayagam 3. अधिक्षक / Superintendent 3. श्री एस जलहमायम / Shri S. Superintendent 3. श्री एस जलहम्बर्णयम / Shri S. Superintendent 3. श्री एस जल्वेल्य राजन/ Shri M Muruganandam 3. श्री एस सुन्दर राजन/ Shri M Muruganandam 4. श्री एस सुन्दर राजन/ Shri S. Sundar Rajan 4. श्री वेत जलवेलमनी/ Shri V. Ganavelmani 5. श्री वेत जलवेलमनी/ Shri V. Ganavelmani 5. श्री वेत जलवेलमनी/ Shri C. Thirumalai Muthu 5. अधीक्षक / Superintendent 5. Shri T Mariappan 5. श्री वेत प्रारिक्षण / Superintendent 5. Superintendent | | श्री सरेश नन्दनवार / | अपर आयक्त/ |
| Shri S.A.Uma Shanker Goud Joint Commissioner श्री पियुष भारदवाज/ Shri Piyush Bhardwaj Assistant Commissioner 4. श्री विनोद कुमार / सहायक आयुक्त/ Shri Vinod Kumar Assistant Commissioner 5. श्री अजित कुमार / सहायक आयुक्त/ Shri Ajit Kumar Assistant Commissioner 6. श्री जी. स्वामीनाथन/ Shri G. Swaminathan Assistant Commissioner 7. श्री जी. लिषार भाषा/ Shri G. Nisar Basha Assistant Commissioner 8. श्री एस. पलिसासी/ सहायक आयुक्त/ Shri S. Palanichamy Assistant Commissioner 9. श्री अरुल अशिर् राजानायगम/ सहायक आयुक्त/ Shri Arul Asir Rajanayagam Assistant Commissioner 10. श्री एल. लक्ष्मणज/ Shri Arul Asir Rajanayagam Assistant Commissioner 11. श्री जे जयपाल / Shri J. Jayapal अधीक्षक / Superintendent 12. श्री एस. जंबाहरल/ Shri S. Jebaharan अधीक्षक / Superintendent 13. श्री एस. बालसुब्रमण्यम / अधीक्षक / Superintendent 14. श्री जे ग्रामार/ Shri J. Ramar अधीक्षक / Superintendent 15. श्री जे ग्रामार/ Shri J. Ramar अधीक्षक / Superintendent 16. श्री एम. मुक्नानल्दन/ Shri R. Paneerselvan 17. श्री एम. मुक्नानल्दन/ Shri M. Wr. मुक्नानल्दन/ Shri S. Sundar Rajan 18. श्री के ग्रामार/ Shri K Vajravel अधीक्षक / Superintendent 19. श्री वी जानवेत्सन्ती/ Shri C. Thirumalal Muthu 21. श्री दी मारिअप्यन/ Shri T. Mariappan 22. श्री पी सुन्दर स्त्रिं/ अधीक्षक / Superintendent Shri T. Mariappan 22. श्री पी सुन्दर स्त्रिं/ | | | |
| Shri S.A.Uma Shanker Goud Joint Commissioner श्री पियुष भारदवाज/ Shri Piyush Bhardwaj Assistant Commissioner 4. श्री विनोद कुमार / सहायक आयुक्त/ Shri Vinod Kumar Assistant Commissioner 5. श्री अजित कुमार / सहायक आयुक्त/ Shri Ajit Kumar Assistant Commissioner 6. श्री जी. स्वामीनाथन/ Shri G. Swaminathan Assistant Commissioner 7. श्री जी. लिषार भाषा/ Shri G. Nisar Basha Assistant Commissioner 8. श्री एस. पलिसासी/ सहायक आयुक्त/ Shri S. Palanichamy Assistant Commissioner 9. श्री अरुल अशिर् राजानायगम/ सहायक आयुक्त/ Shri Arul Asir Rajanayagam Assistant Commissioner 10. श्री एल. लक्ष्मणज/ Shri Arul Asir Rajanayagam Assistant Commissioner 11. श्री जे जयपाल / Shri J. Jayapal अधीक्षक / Superintendent 12. श्री एस. जंबाहरल/ Shri S. Jebaharan अधीक्षक / Superintendent 13. श्री एस. बालसुब्रमण्यम / अधीक्षक / Superintendent 14. श्री जे ग्रामार/ Shri J. Ramar अधीक्षक / Superintendent 15. श्री जे ग्रामार/ Shri J. Ramar अधीक्षक / Superintendent 16. श्री एम. मुक्नानल्दन/ Shri R. Paneerselvan 17. श्री एम. मुक्नानल्दन/ Shri M. Wr. मुक्नानल्दन/ Shri S. Sundar Rajan 18. श्री के ग्रामार/ Shri K Vajravel अधीक्षक / Superintendent 19. श्री वी जानवेत्सन्ती/ Shri C. Thirumalal Muthu 21. श्री दी मारिअप्यन/ Shri T. Mariappan 22. श्री पी सुन्दर स्त्रिं/ अधीक्षक / Superintendent Shri T. Mariappan 22. श्री पी सुन्दर स्त्रिं/ | 2. | श्री एस. ए. उमा शंकर गौड/ | संयुक्त आयुक्त/ |
| Shri Piyush Bhardwaj Assistant Commissioner सहायक आयुक्त/ Shri Vinod Kumar Assistant Commissioner सहायक आयुक्त/ Shri Ajit Kumar Assistant Commissioner सहायक आयुक्त/ Shri G. Swaminathan Assistant Commissioner सहायक आयुक्त/ Shri G. Nisar Basha Assistant Commissioner सहायक आयुक्त/ Shri G. Nisar Basha Assistant Commissioner सहायक आयुक्त/ Shri G. Nisar Basha Assistant Commissioner सहायक आयुक्त/ Shri S. Palanichamy Assistant Commissioner सहायक आयुक्त/ Shri Assistant Commissioner सहायक आयुक्त/ Shri Assistant Commissioner सहायक आयुक्त/ Assistant Commissioner सहायक आयुक्त/ Assistant Commissioner सहायक आयुक्त/ Assistant Commissioner सहायक आयुक्त/ Assistant Commissioner प्रशाशनिक अधिकारी (डी. डी.ओ.)/ And (DDO) श्री एत. तक्ष्मणन/ Shri L. Lakshmana AO (DDO) श्री जे जयपाल / Shri J. Jayapal अधीक्षक / Superintendent श्री एस जेबाहरल/ Shri S. Jebaharan अधीक्षक / Superintendent अधिक्षक / Superintendent अधिक्षक / Superintendent औ सर बालसुब्रमण्यम / Shri S. Balasubramaniam श्री एस मुक्वानन्दल/ Shri R. Paneerselvan श्री एस मुक्वानन्दल/ Shri Muruganandam श्री एस सुन्दर राजल/ Shri S. Sundar Rajan श्री ऐस सुन्दर राजल/ Shri S. Sundar Rajan श्री के ताजन्वेलमनी/ Shri S. Superintendent श्री के ताजन्वेलमनी/ Shri S. Superintendent श्री के ताजन्वेलमनी/ Shri T Mariappan श्री के मारिक / Superintendent | | | |
| Shri Piyush Bhardwaj 4. श्री विनोद कुमार / सहायक आयुक्त/ Shri Vinod Kumar 5. श्री अजित कुमार / सहायक आयुक्त/ Shri Ajit Kumar 6. श्री जी. स्वामीनाथन/ Shri G. Swaminathan 7. श्री जी. तिवार माण/ Shri G. Nisar Basha 8. श्री एस. पत्रतिमामी/ Shri S. Palanichamy 9. श्री अरुत अशिर् राजानायगम/ Shri Aul Asir Rajanayagam 10. श्री एत. तक्ष्मणन/ Shri L. Lakshmanan 11. श्री एत. जल्मणन/ Shri S. Balasubramaniam 12. श्री एस. वातसूबमण्यम / Shri S. Balasubramaniam 14. श्री आर पन्नीरसेत्वन/ Shri S. Paneerselvan 15. श्री एस मुन्दर राजन/ Shri J. Ramar 16. श्री एस मुन्दर राजन/ Shri S. Sundar Rajan 17. श्री एस मुन्दर राजन/ Shri S. Sundar Rajan 18. श्री एस मुन्दर राजन/ Shri K. Sundar Rajan 19. श्री से चुन्दर राजन/ Shri S. Sundar Rajan 19. श्री से चुन्दर राजन/ Shri S. Sundar Rajan 19. श्री से चुन्दर राजन/ Shri S. Sundar Rajan 10. श्री एस मुन्दर राजन/ Shri S. Sundar Rajan 11. श्री से चुन्दर राजन/ Shri S. Sundar Rajan 12. श्री से चुन्दर राजन/ Shri S. Sundar Rajan 13. श्री से चुन्दर राजन/ Shri S. Sundar Rajan 14. श्री से चुन्दर राजन/ Shri S. Sundar Rajan 15. श्री से चुन्दर राजन/ Shri S. Sundar Rajan 16. श्री एस मुन्दर राजन/ Shri S. Sundar Rajan 17. श्री एस पुन्दर राजन/ Shri S. Sundar Rajan 18. श्री से चुन्दर राजन/ Shri S. Sundar Rajan 19. श्री से चुन्दर राजन/ Shri S. Sundar Rajan 19. श्री सी चुरमले मुयु Shri C. Thirumalai Muthu 10. श्री सी मारिअप्पन/ Shri C Thirumalai Muthu 11. श्री सी मारिअप्पन/ Shri T Mariappan 12. श्री पी सुन्दर मूर्ति/ | 3. | श्री पियूष भारदवाज/ | सहायक आयुक्त/ |
| Shri Vinod Kumar Shri Vinod Kumar Assistant Commissioner हैं. श्री अजित कुमार/ Shri Ajit Kumar Assistant Commissioner हैं. श्री जी. स्वामीनाथन/ Shri G. Swaminathan Assistant Commissioner हैं. श्री जी. स्वामीनाथन/ Shri G. Swaminathan Assistant Commissioner हैं. श्री जी. निषार आषा/ Shri G. Nisar Basha Assistant Commissioner हैं. श्री एस. पत्निसामी/ Shri S. Palanichamy Assistant Commissioner हैं. श्री एस. पत्निसामी/ Shri S. Palanichamy Assistant Commissioner हैं. श्री उस्त अशिर् राजानायगम/ Shri Arul Asir Rajanayagam Assistant Commissioner हैं. श्री उस्त अशिर् राजानायगम/ Shri L. Lakshmanan हैं. श्री एत. तक्ष्मणन/ Shri L. Lakshmanan हैं. श्री एस. जेवाहरन/ Shri S. Jayapal हैं. श्री जे जयपात / Shri J. Jayapal हैं. श्री जे जयपात / Shri S. Jebaharan हैं. श्री एस. बातसुब्रमण्यम / Shri S. Balasubramaniam हैं. श्री जे रामार/ Shri J. Ramar हैं एम. मुख्यानन्दन/ Shri M. Muruganandam हैं. श्री जे रामार/ Shri J. Ramar हैं प्रम मुख्यानन्दन/ Shri M. Muruganandam हैं एम. मुख्यानन्दन/ Shri M. Superintendent हैं प्रम मुख्यानन्दन/ Shri S. Sundar Rajan हैं प्रम सुन्दर राजन/ Shri S. Sundar Rajan हैं से से वज्वेत/ Shri K. Vajravel हैं से से वज्वेत/ Shri K. Vajravel हैं से से से उपperintendent हैं से से मार उपपन/ Shri C. Thirumalai Muthu हैं से से मार उपपन/ Shri T. Mariappan हैं से से से से सुखु अधीक्षक / Superintendent हैं से से मार उपपन/ Shri T. Mariappan हैं से से से सुक्दर सूर्ति/ | | ., | |
| Shri Vinod Kumar 5. श्री अजित कुमार/ Shri Ajit Kumar 6. श्री जी. स्वामीनाथन/ Shri G. Swaminathan 7. श्री जी. लिषार भाषा/ Shri G. Nisar Basha 8. श्री एस. पलिनसामी/ Shri S. Palanichamy 9. श्री उत्तर अभिए र राजानाथगम/ Shri Assistant Commissioner 10. श्री एत. लक्ष्मणन/ Shri L. Lakshmanan 11. श्री जे जयपाल / Shri J. Jayapal 12. श्री एस बालसुब्रमण्यम / Shri S. Balasubramaniam 14. श्री आर पल्नीरसंत्वन/ Shri R. Paneerselvan 15. श्री र समुर्ग समुर्ग अधीक्षक / Superintendent 16. श्री एम मुख्यानल्दन/ Shri J. Hamar 17. श्री एस सुन्दर राजन/ Shri M Muruganandam 18. श्री के व्यवेत / Shri K Vajravel 19. श्री वी जानवेतमनी/ Shri S. Superintendent 19. श्री वी जानवेतमनी/ Shri S. Sundar Rajan 19. श्री वो जानवेतमनी/ Shri S. Sundar Rajan 10. श्री एम मुख्यानल्दन/ Shri K. Paneerselvan 11. श्री एम मुख्यानल्दन/ Shri K. Superintendent 12. श्री एम मुख्यानल्दन/ Shri S. Sundar Rajan 13. श्री एस सुन्दर राजन/ Shri S. Sundar Rajan 14. श्री के व्यवेत/ Shri K Vajravel 15. श्री के वानवेतमनी/ Shri S. Sundar Rajan 16. श्री के वानवेतमनी/ Shri S. Sundar Rajan 17. श्री वी जानवेतमनी/ Shri S. Sundar Rajan 18. श्री के वानवेतमनी/ Shri S. Sundar Rajan 18. श्री के वानवेतमनी/ Shri C. Thirumalai Muthu 20. श्री सी धिरुन्दर मूर्व/ Shri C. Thirumalai Muthu 21. श्री टी मारिअप्पन/ Shri T Mariappan 22. श्री पी सुन्दर मूर्व/ श्री पी सुन्दर मूर्व/ Shri T Mariappan | 4. | श्री विनोद कुमार / | सहायक आयुक्त/ |
| Shri Ajit Kumar Assistant Commissioner 6. श्री जी. स्वामीनाथन/ Shri G. Swaminathan Assistant Commissioner 7. श्री जी. निषार भाषा/ Shri G. Nisar Basha Assistant Commissioner 8. श्री एस. पनिसामी/ Shri S. Palanichamy Assistant Commissioner 9. श्री अरुल अशिर् राजानायगम/ Shri Arul Asir Rajanayagam Assistant Commissioner 10. श्री एल. लक्ष्मणन/ Shri L. Lakshmanan AO (DDO) 11. श्री जे जयपाल / Shri J. Jayapal 12. श्री एस जेबाहरन/ Shri S. Jebaharan 13. श्री एस वालसुबमण्यम / Shri S. Balasubramaniam 14. श्री आर पन्नीरसेल्वन/ Shri R. Paneerselvan 15. श्री जे रामार/ Shri J Ramar 16. श्री एम मुख्यानन्दन/ Shri M Muruganandam 17. श्री एस सुन्दर राजन/ Shri S. Sundar Rajan 18. श्री के वज्रवेल/ Shri K Vajravel 19. श्री वी जानवेलमनी/ Shri V. Gnanavelmani 20. श्री सी थिरुमले मुधु Shri C. Thirumalai Muthu 21. श्री दी मारिअप्पन/ Shri T Mariappan 22. श्री पी सुन्दर सूर्ति/ अधीक्षक / Superintendent Shri T Mariappan 22. श्री पी सुन्दर सूर्ति/ | | _ | _ |
| Shri Ajit Kumar Assistant Commissioner 6. श्री जी. स्वामीनाथन/ Shri G. Swaminathan Assistant Commissioner 7. श्री जी. निषार भाषा/ Shri G. Nisar Basha Assistant Commissioner 8. श्री एस. पलिनसामी/ Shri S. Palanichamy Assistant Commissioner 9. श्री अरुल अशिर् राजानायगम/ Shri Arul Asir Rajanayagam Assistant Commissioner 10. श्री एल. लक्ष्मणन/ Shri L. Lakshmanan AO (DDO) 11. श्री जे जयपाल / Shri J. Jayapal 12. श्री एस जेबाहरन/ Shri S. Jebaharan 13. श्री एस बालसुब्रमण्यम / Shri S. Balasubramaniam 14. श्री आर पन्नीरसेल्वन/ Shri R. Paneerselvan 15. श्री जे रामार/ Shri J Ramar 16. श्री एम मुख्यानन्दन/ Shri M Muruganandam 17. श्री एस सुन्दर राजन/ Shri S. Sundar Rajan 18. श्री के वज्रवेल/ Shri K Vajravel 19. श्री वी जानवेलमनी/ Shri V. Gnanavelmani 20. श्री सी थिरुमले मुंधु Shri C. Thirumalai Muthu 21. श्री दी मारिअप्पन/ Shri T Mariappan 22. श्री पी सुन्दर सूर्ति/ अधीक्षक / Superintendent Shri T Mariappan 22. श्री पी सुन्दर सूर्ति/ | 5. | श्री अजित क्मार/ | सहायक आयुक्त/ |
| Shri G. Swaminathan Assistant Commissioner 7. श्री जी. निषार भाषा/ Shri G. Nisar Basha Assistant Commissioner 8. श्री एस. पलिनसामी/ Shri S. Palanichamy Assistant Commissioner 9. श्री अरुल अशिर् राजानायगम/ Shri Arul Asir Rajanayagam Assistant Commissioner 10. श्री एल. लक्ष्मणन/ Shri L. Lakshmanan Ao (DDO) 11. श्री जे जयपाल / Shri J. Jayapal अधीक्षक / Superintendent 12. श्री एस जेबाहरन/ Shri S. Jebaharan अधीक्षक / Superintendent 13. श्री एस बालसुब्रमण्यम / Shri S. Balasubramaniam 14. श्री आर पन्नीरसेल्वन/ Shri R. Paneerselvan 15. श्री जे रामार/ Shri J Ramar अधीक्षक / Superintendent 16. श्री एम मुख्यानन्दन/ Shri M Muruganandam 17. श्री एस सुन्दर राजन/ Shri S. Sundar Rajan 18. श्री के वज्रवेल/ Shri K Vajravel अधीक्षक / Superintendent 19. श्री वी जानवेलमनी/ Shri V. Gnanavelmani 20. श्री सी थिरुमले मुथु Shri C. Thirumalai Muthu 21. श्री टी मारिअप्पन/ Shri T Mariappan 22. श्री पी सुन्दर मूर्ति/ अधीक्षक / Superintendent | | | |
| Shri G. Swaminathan Assistant Commissioner 7. श्री जी. निषार भाषा/ Shri G. Nisar Basha Assistant Commissioner 8. श्री एस. पलिसामी/ Shri S. Palanichamy Assistant Commissioner 9. श्री अरुल अशिर् राजानायगम/ Shri Arul Asir Rajanayagam Assistant Commissioner 10. श्री एल. लक्ष्मणन/ Shri L. Lakshmanan AO (DDO) 11. श्री जे जयपाल / Shri J. Jayapal अधीक्षक / Superintendent 12. श्री एस जेबाहरन/ Shri S. Jebaharan अधीक्षक / Superintendent 13. श्री एस बालसुब्रमण्यम / Shri S. Balasubramaniam 14. श्री आर पन्नीरसेल्वन/ Shri R. Paneerselvan 15. श्री जे रामार/ Shri J Ramar अधीक्षक / Superintendent 16. श्री एम मुख्यानन्दन/ Shri M Muruganandam 17. श्री एस सुन्दर राजन/ Shri S. Sundar Rajan 18. श्री के वज्रवेल/ Shri K Vajravel अधीक्षक / Superintendent 19. श्री वी जानवेलमनी/ Shri V. Gnanavelmani 20. श्री सी थिरमले मुखु Shri C. Thirumalai Muthu 21. श्री टी मारिअप्पन/ Shri T Mariappan 22. श्री पी सुन्दर मूर्ति/ अधीक्षक / Superintendent Stri T Mariappan 22. श्री पी सुन्दर मूर्ति/ | 6. | श्री जी. स्वामीनाथन/ | सहायक आयुक्त/ |
| 8. श्री एस. पलनिसामी/ सहायक आयुक्त/ Shri S. Palanichamy Assistant Commissioner 9. श्री अरुल अशिर् राजानायगम/ सहायक आयुक्त/ Shri Arul Asir Rajanayagam Assistant Commissioner 10. श्री एल. लक्ष्मणन/ प्रशाशनिक अधिकारी (डी. डी.ओ.)/ Shri L. Lakshmanan AO (DDO) 11. श्री जे जयपाल / Shri J. Jayapal अधीक्षक / Superintendent 12. श्री एस जेबाहर्म/ Shri S. Jebaharan अधीक्षक / Superintendent 13. श्री एस बालसुब्रमण्यम / अधीक्षक / Superintendent 14. श्री आर पन्नीरसेल्वन/ अधीक्षक / Superintendent 15. श्री जे रामार/ Shri J Ramar अधीक्षक / Superintendent 16. श्री एम मुख्यानन्दन/ अधीक्षक / Superintendent 17. श्री एस सुन्दर राजन/ अधीक्षक / Superintendent 18. श्री के वज्रवेल/ Shri K Vajravel अधीक्षक / Superintendent 19. श्री वी जानवेलमनी/ अधीक्षक / Superintendent 20. श्री सी विक्रमले मुधु अधीक्षक / Superintendent 21. श्री टी मारिअप्पन/ अधीक्षक / Superintendent 22. श्री पी सुन्दर मूर्ति/ अधीक्षक / Superintendent 31. अधीक्षक / Superintendent 32. श्री टी मारिअप्पन/ अधीक्षक / Superintendent 33. अधीक्षक / Superintendent 34. सी विक्रमले मुधु अधीक्षक / Superintendent 35. अधीक्षक / Superintendent 36. श्री टी मारिअप्पन/ अधीक्षक / Superintendent 36. श्री पी सुन्दर मूर्ति/ अधीक्षक / Superintendent | | Shri G. Swaminathan | |
| 8. श्री एस. पलिसामी/ Shri S. Palanichamy Assistant Commissioner 9. श्री अरुल अशिर् राजानायगम/ सहायक आयुक्त/ Shri Arul Asir Rajanayagam Assistant Commissioner 10. श्री एल. लक्ष्मणन/ प्रशाशनिक अधिकारी (डी. डी.ओ.)/ Shri L. Lakshmanan AO (DDO) 11. श्री ज जयपाल / Shri J. Jayapal अधीक्षक / Superintendent 12. श्री एस जेबाहरल/ Shri S. Jebaharan अधीक्षक / Superintendent 13. श्री एस बालसुब्रमण्यम / अधीक्षक / Superintendent 14. श्री आर पन्नीरसेल्वन/ अधीक्षक / Superintendent 15. श्री जे रामार/ Shri J Ramar अधीक्षक / Superintendent 16. श्री एम मुख्यानन्दन/ अधीक्षक / Superintendent 17. श्री एस मुख्यानन्दन/ अधीक्षक / Superintendent 18. श्री के वज्रवेल/ Shri K Vajravel अधीक्षक / Superintendent 19. श्री वी जानवेलमनी/ अधीक्षक / Superintendent 20. श्री सी विरुमके मुधु अधीक्षक / Superintendent 21. श्री टी मारिअप्पन/ अधीक्षक / Superintendent 22. श्री पी सुन्दर मूर्ति/ अधीक्षक / Superintendent 31. अधीक्षक / Superintendent 32. श्री दी मारिअप्पन/ अधीक्षक / Superintendent 33. अधीक्षक / Superintendent 34. अधीक्षक / Superintendent 35. अधीक्षक / Superintendent 36. अधीक्षक / Superintendent 37. अधीक्षक / Superintendent 38. अधीक्षक / Superintendent 39. अधीक्षक / Superintendent 30. अधीक्षक / Superintendent | 7. | श्री जी. निषार भाषा/ | सहायक आयुक्त/ |
| Shri S. Palanichamy 9. श्री अरुल अशिर् राजानायगम/ Shri Arul Asir Rajanayagam 10. श्री एल. लक्ष्मणन/ Shri L. Lakshmanan 11. श्री जे जयपाल / Shri J. Jayapal 12. श्री एस जेबाहरल/ Shri S. Jebaharan 13. श्री एस बालसुब्रमण्यम / Shri S. Balasubramaniam 14. श्री आ रा पल्नीरसेल्वन/ Shri R. Paneerselvan 15. श्री जे रामार/ Shri J Ramar 16. श्री एम मुरुगानल्दन/ Shri M Muruganandam 17. श्री एस सुन्दर राजन/ Shri S. Sundar Rajan 18. श्री के वज्रवेल/ Shri K Vajravel 19. श्री वी जानवेलमनी/ Shri V. Gnanavelmani 20. श्री सी थिरुमले मुशु Shri C. Thirumalai Muthu 21. श्री पी सुन्दर मूर्ति/ Shri T Mariappan 22. श्री पी सुन्दर मूर्ति/ Shri T Mariappan 22. श्री पी सुन्दर मूर्ति/ Shri T Mariappan | | Shri G. Nisar Basha | |
| Shri S. Palanichamy Assistant Commissioner 9. श्री अरुल अशिर् राजानायगम/ Shri Arul Asir Rajanayagam Assistant Commissioner 10. श्री एल. लक्ष्मणन/ Shri L. Lakshmanan AO (DDO) 11. श्री जे जयपाल / Shri J. Jayapal 31. श्री एस जेबाहरन/ Shri S. Jebaharan 31. श्री एस बालसुब्रमण्यम / Shri S. Balasubramaniam 14. श्री आर पन्नीरसेल्वन/ Shri R. Paneerselvan 15. श्री जे रामार/ Shri J Ramar 16. श्री एम मुख्यानन्दन/ Shri M Muruganandam 17. श्री एस सुन्दर राजन/ Shri S. Sundar Rajan 18. श्री के वज्ञवेल/ Shri K Vajravel 19. श्री वी जानवेलमनी/ Shri V. Gnanavelmani 20. श्री सी थिरुमले मुधु Shri C. Thirumalai Muthu 21. श्री दी मारिअप्पन/ Shri T Mariappan 22. श्री पी सुन्दर मूर्ति/ अधीक्षक / Superintendent 34. अधीक्षक / Superintendent 35. अधीक्षक / Superintendent 36. अधिक्षक / Superintendent 36. अधिक्षक / Superintendent 37. अधीक्षक / Superintendent 38. अधिक्षक / Superintendent 38. अधिक्षक / Superintendent 39. अधीक्षक / Superintendent 40. अधीक्षक / Superintendent 41. अधीक्षक / Superintendent 42. श्री दी मारिअप्पन/ Shri T Mariappan 43. अधीक्षक / Superintendent 44. अधीक्षक / Superintendent 45. अधीक्षक / Superintendent 46. अधीक्षक / Superintendent 47. अधीक्षक / Superintendent 48. अधीक्षक / Superintendent 49. अधीक्षक / Superintendent | 8. | श्री एस. पलनिसामी/ | सहायक आयुक्त/ |
| Shri Arul Asir Rajanayagam Assistant Commissioner 10. श्री एल. लक्ष्मणन/ प्रशाशनिक अधिकारी (डी. डी.ओ.)/ Shri L. Lakshmanan AO (DDO) 11. श्री जे जयपाल / Shri J. Jayapal अधीक्षक / Superintendent 12. श्री एस जेबाहरन/ Shri S. Jebaharan अधीक्षक / Superintendent 13. श्री एस बालसुब्रमण्यम / अधीक्षक / Superintendent 14. श्री आर पन्नीरसेल्वन/ अधीक्षक / Superintendent 15. श्री जे रामार/ Shri J Ramar अधीक्षक / Superintendent 16. श्री एम मुख्यानन्दन/ अधीक्षक / Superintendent 17. श्री एस मुख्यानन्दन/ अधीक्षक / Superintendent 18. श्री के बज्रवेल/ Shri K Vajravel अधीक्षक / Superintendent 19. श्री वो जानवेलमनी/ अधीक्षक / Superintendent 20. श्री सी थिस्मले मुथु अधीक्षक / Superintendent 21. श्री टी मारिअप्पन/ अधीक्षक / Superintendent 22. श्री पी सुन्दर मूर्ति/ अधीक्षक / Superintendent 31. अधीक्षक / Superintendent 32. श्री सी थिस्मले मुथु अधीक्षक / Superintendent 33. अधीक्षक / Superintendent 34. अधीक्षक / Superintendent 35. अधीक्षक / Superintendent 36. अधीक्षक / Superintendent 36. अधीक्षक / Superintendent 37. अधीक्षक / Superintendent 38. अधीक्षक / Superintendent 38. अधीक्षक / Superintendent 39. अधीक्षक / Superintendent 30. अधीक्षक / Superintendent 31. अधीक्षक / Superintendent 32. अधीक्षक / Superintendent | | Shri S. Palanichamy | Assistant Commissioner |
| 10. श्री एल. लक्ष्मणन/ Shri L. Lakshmanan AO (DDO) 11. श्री जे जयपाल / Shri J. Jayapal अधीक्षक / Superintendent 12. श्री एस जेबाहरन/ Shri S. Jebaharan अधीक्षक / Superintendent 13. श्री एस बालसुब्रमण्यम / अधीक्षक / Superintendent 14. श्री आर पन्नीरसेल्वन/ Shri R. Paneerselvan 15. श्री जे रामार/ Shri J Ramar अधीक्षक / Superintendent 16. श्री एम मुख्यानन्दन/ अधीक्षक / Superintendent 17. श्री एस सुन्दर राजन/ Shri K Vajravel अधीक्षक / Superintendent 18. श्री के वज्रवेल/ Shri K Vajravel अधीक्षक / Superintendent 19. श्री वी जानवेलमनी/ Shri V. Gnanavelmani 20. श्री सी थिरुमले मुथु अधीक्षक / Superintendent 21. श्री री मारिअप्पन/ Shri C. Thirumalai Muthu 22. श्री पी सुन्दर मूर्ति/ अधीक्षक / Superintendent 318 अधिक्षक / Superintendent 320 श्री सी थिरुमले मुथु अधीक्षक / Superintendent 318 अधिक्षक / Superintendent 321 अधीक्षक / Superintendent | 9. | श्री अरुल अशिर् राजानायगम/ | सहायक आयुक्त/ |
| Shri L. Lakshmanan AO (DDO) 11. श्री जे जयपाल / Shri J. Jayapal अधीक्षक / Superintendent 12. श्री एस जेबाहरन/ Shri S. Jebaharan अधीक्षक / Superintendent 13. श्री एस बालसुब्रमण्यम / अधीक्षक / Superintendent 14. श्री आर पन्नीरसेल्वन/ अधीक्षक / Superintendent 15. श्री जे रामार/ Shri J Ramar अधीक्षक / Superintendent 16. श्री एम मुख्यानन्दन/ अधीक्षक / Superintendent 17. श्री एस मुख्यानन्दन/ अधीक्षक / Superintendent 18. श्री के वज्रवेल/ Shri K Vajravel अधीक्षक / Superintendent 19. श्री वी जानवेलमनी/ अधीक्षक / Superintendent 20. श्री सी थिरुमले मुथु अधीक्षक / Superintendent 21. श्री टी मारिअप्पन/ अधीक्षक / Superintendent 22. श्री पी सुन्दर मूर्ति/ अधीक्षक / Superintendent | | Shri Arul Asir Rajanayagam | Assistant Commissioner |
| 11. श्री जे जयपाल / Shri J. Jayapal अधीक्षक / Superintendent 12. श्री एस जेबाहरन/ Shri S. Jebaharan अधीक्षक / Superintendent 13. श्री एस बालसुब्रमण्यम / अधीक्षक / Superintendent 14. श्री आर पन्नीरसेल्वन/ अधीक्षक / Superintendent 15. श्री जे रामार/ Shri J Ramar अधीक्षक / Superintendent 16. श्री एम मुरुगानन्दन/ अधीक्षक / Superintendent 17. श्री एस सुन्दर राजन/ अधीक्षक / Superintendent 18. श्री के बज़वेल/ Shri K Vajravel अधीक्षक / Superintendent 19. श्री वी जानवेलमनी/ अधीक्षक / Superintendent 19. श्री वी मारिअप्पन/ अधीक्षक / Superintendent | 10. | श्री एत. तक्ष्मणन/ | प्रशाशनिक अधिकारी (डी. डी.ओ.)/ |
| 12. श्री एस जेबाहरल/ Shri S. Jebaharan अधीक्षक / Superintendent 13. श्री एस बालसुब्रमण्यम / अधीक्षक / Superintendent 14. श्री आर पन्नीरसेल्वन/ अधीक्षक / Superintendent 15. श्री जे रामार/ Shri J Ramar अधीक्षक / Superintendent 16. श्री एम मुरुगानन्दन/ अधीक्षक / Superintendent 17. श्री एस सुन्दर राजन/ अधीक्षक / Superintendent 18. श्री के बज्रवेल/ Shri K Vajravel अधीक्षक / Superintendent 19. श्री वी जानवेलमनी/ अधीक्षक / Superintendent 19. श्री वी मारिअप्पन/ अधीक्षक / Superintendent | | Shri L. Lakshmanan | AO (DDO) |
| 13. | 11. | श्री जे जयपाल / Shri J. Jayapal | अधीक्षक / Superintendent |
| Shri S. Balasubramaniam 14. श्री आर पन्नीरसेल्वन/ Shri R. Paneerselvan 15. श्री जे रामार/ Shri J Ramar 16. श्री एम मुरुगानन्दन/ Shri M Muruganandam 17. श्री एस सुन्दर राजन/ Shri S. Sundar Rajan 18. श्री के वज्रवेल/ Shri K Vajravel 19. श्री वी ज्ञानवेलमनी/ Shri V. Gnanavelmani 20. श्री सी थिरुमले मुथु Shri C. Thirumalai Muthu 21. श्री टी मारिअप्पन/ Shri T Mariappan 22. श्री पी सुन्दर मूर्ति/ श्री पी सुन्दर मूर्ति/ अधीक्षक / Superintendent Shri T Mariappan 22. श्री पी सुन्दर मूर्ति/ अधीक्षक / Superintendent Shri T Mariappan | 12. | श्री एस जेबाहरन/ Shri S. Jebaharan | अधीक्षक / Superintendent |
| 14. | 13. | श्री एस बालसुब्रमण्यम / | अधीक्षक / Superintendent |
| Shri R. Paneerselvan 15. श्री जे रामार/ Shri J Ramar अधीक्षक / Superintendent 16. श्री एम मुरुगानन्दन/ अधीक्षक / Superintendent Shri M Muruganandam 17. श्री एस सुन्दर राजन/ अधीक्षक / Superintendent Shri S. Sundar Rajan 18. श्री के वज्रवेल/ Shri K Vajravel अधीक्षक / Superintendent 19. श्री वी ज्ञानवेलमनी/ अधीक्षक / Superintendent Shri V. Gnanavelmani 20. श्री सी थिरुमले मुथु अधीक्षक / Superintendent Shri C. Thirumalai Muthu 21. श्री टी मारिअप्पन/ अधीक्षक / Superintendent Shri T Mariappan 22. श्री पी सुन्दर मूर्ति/ अधीक्षक / Superintendent | | Shri S. Balasubramaniam | |
| 15. श्री जे रामार/ Shri J Ramar अधिक्षक / Superintendent 16. श्री एम मुरुगानन्दन/ अधिक्षक / Superintendent Shri M Muruganandam 17. श्री एस सुन्दर राजन/ अधिक्षक / Superintendent Shri S. Sundar Rajan 18. श्री के वज्रवेल/ Shri K Vajravel अधिक्षक / Superintendent 19. श्री वी ज्ञानवेलमनी/ अधिक्षक / Superintendent Shri V. Gnanavelmani 20. श्री सी थिरुमले मुथु अधिक्षक / Superintendent Shri C. Thirumalai Muthu 21. श्री टी मारिअप्पन/ अधिक्षक / Superintendent Shri T Mariappan 22. श्री पी सुन्दर मूर्ति/ अधिक्षक / Superintendent | 14. | श्री आर पन्नीरसेल्वन/ | अधीक्षक / Superintendent |
| 16.श्री एम मुरुगानन्दन/ Shri M Muruganandamअधीक्षक / Superintendent17.श्री एस सुन्दर राजन/ Shri S. Sundar Rajanअधीक्षक / Superintendent18.श्री के वज्रवेल/ Shri K Vajravelअधीक्षक / Superintendent19.श्री वी ज्ञानवेलमनी/ Shri V. Gnanavelmaniअधीक्षक / Superintendent20.श्री सी थिरुमले मुथु Shri C. Thirumalai Muthuअधीक्षक / Superintendent21.श्री टी मारिअप्पन/ Shri T Mariappanअधीक्षक / Superintendent22.श्री पी सुन्दर मूर्ति/अधीक्षक / Superintendent | | Shri R. Paneerselvan | |
| Shri M Muruganandam 17. श्री एस सुन्दर राजन/ Shri S. Sundar Rajan 18. श्री के वज्रवेल/ Shri K Vajravel अधीक्षक / Superintendent 19. श्री वी ज्ञानवेलमनी/ Shri V. Gnanavelmani 20. श्री सी थिरुमले मुथु Shri C. Thirumalai Muthu 21. श्री टी मारिअप्पन/ Shri T Mariappan 22. श्री पी सुन्दर मूर्ति/ 31धिक्षक / Superintendent | 15. | श्री जे रामार/ Shri J Ramar | अधीक्षक / Superintendent |
| 17.श्री एस सुन्दर राजन/ Shri S. Sundar Rajanअधीक्षक / Superintendent18.श्री के वज्रवेल/ Shri K Vajravelअधीक्षक / Superintendent19.श्री वी ज्ञानवेलमनी/ Shri V. Gnanavelmaniअधीक्षक / Superintendent20.श्री सी थिरुमले मुथु Shri C. Thirumalai Muthuअधीक्षक / Superintendent21.श्री टी मारिअप्पन/ Shri T Mariappanअधीक्षक / Superintendent22.श्री पी सुन्दर मूर्ति/अधीक्षक / Superintendent | 16. | श्री एम मुरुगानन्दन/ | अधीक्षक / Superintendent |
| Shri S. Sundar Rajan 18. श्री के वज्रवेल/ Shri K Vajravel अधीक्षक / Superintendent 19. श्री वी ज्ञानवेलमनी/ अधीक्षक / Superintendent 20. श्री सी थिरुमले मुथु अधीक्षक / Superintendent 21. श्री टी मारिअप्पन/ अधीक्षक / Superintendent 22. श्री पी सुन्दर मूर्ति/ अधीक्षक / Superintendent 31. अधीक्षक / Superintendent 32. श्री पी सुन्दर मूर्ति/ | | Shri M Muruganandam | |
| 18.श्री के वज्रवेल/ Shri K Vajravelअधीक्षक / Superintendent19.श्री वी ज्ञानवेलमनी/ Shri V. Gnanavelmaniअधीक्षक / Superintendent20.श्री सी थिरुमले मुथु Shri C. Thirumalai Muthuअधीक्षक / Superintendent21.श्री टी मारिअप्पन/ Shri T Mariappanअधीक्षक / Superintendent22.श्री पी सुन्दर मूर्ति/अधीक्षक / Superintendent | 17. | श्री एस सुन्दर राजन/ | अधीक्षक / Superintendent |
| 19.श्री वी ज्ञानवेलमनी/ Shri V. Gnanavelmaniअधीक्षक / Superintendent20.श्री सी थिरुमले मुथु Shri C. Thirumalai Muthuअधीक्षक / Superintendent21.श्री टी मारिअप्पन/ Shri T Mariappanअधीक्षक / Superintendent22.श्री पी सुन्दर मूर्ति/अधीक्षक / Superintendent | | Shri S. Sundar Rajan | |
| Shri V. Gnanavelmani 20. श्री सी थिरुमले मुथु Shri C. Thirumalai Muthu 21. श्री टी मारिअप्पन/ Shri T Mariappan 22. श्री पी सुन्दर मूर्ति/ 31धिक्षक / Superintendent 31धिक्षक / Superintendent 31धिक्षक / Superintendent 320. अर्थे सिक / Superintendent | | श्री के वज्रवेल/ Shri K Vajravel | अधीक्षक / Superintendent |
| 20.श्री सी थिरुमले मुथु Shri C. Thirumalai Muthuअधीक्षक / Superintendent21.श्री टी मारिअप्पन/ Shri T Mariappanअधीक्षक / Superintendent22.श्री पी सुन्दर मूर्ति/अधीक्षक / Superintendent | 19. | श्री वी ज्ञानवेलमनी/ | अधीक्षक / Superintendent |
| Shri C. Thirumalai Muthu 21. श्री टी मारिअप्पन/ अधीक्षक / Superintendent Shri T Mariappan 22. श्री पी सुन्दर मूर्ति/ अधीक्षक / Superintendent | | | |
| 21.श्री टी मारिअप्पन/ Shri T Mariappanअधीक्षक / Superintendent22.श्री पी सुन्दर मूर्ति/अधीक्षक / Superintendent | 20. | श्री सी थिरुमलै मुथु | अधीक्षक / Superintendent |
| Shri T Mariappan 22. श्री पी सुन्दर मूर्ति/ 31धीक्षक / Superintendent | | Shri C. Thirumalai Muthu | |
| 22. श्री पी सुन्दर मूर्ति/ अधीक्षक / Superintendent | 21. | श्री टी मारिअप्पन/ | अधीक्षक / Superintendent |
| Signal of the state of the stat | | Shri T Mariappan | |
| Shri P. Sundarmurthy | 22. | 3 | अधीक्षक / Superintendent |
| | | Shri P. Sundarmurthy | |

| 23. | श्री जी जे पन्निकर/ | अधीक्षक / Superintendent |
|-----|-------------------------------|--------------------------|
| | Shri G.J.Pannicker | · · |
| 24. | श्री वी अलगरसँ/ | अधीक्षक / Superintendent |
| | Shri V Alagarasan | · |
| 25. | श्री जी रविचंद्रन/ | अधीक्षक / Superintendent |
| | Shri G Ravichandran | · |
| 26. | श्री के चिन्ना थम्बी | अधीक्षक / Superintendent |
| | Shri K Chinnathambi | |
| 27. | श्री निशित/ Shri Nishit | निरीक्षक / Inspector |
| 28. | श्री सचिन र. फिरंगे/ | निरीक्षक / Inspector |
| | Shri Sachin R. Phirange | |
| 29. | श्री मनीष कुमार/ | निरीक्षक / Inspector |
| | Shri Manish Kumar | |
| 30. | श्री ललित गौड़/ | निरीक्षक / Inspector |
| | Shri Lalit Gaur | |
| 31. | श्री राम नरेश मीणा/ | निरीक्षक / Inspector |
| | Shri Ram Naresh Meena | |
| 32. | श्री दानी हिकानी/ | निरीक्षक / Inspector |
| | Shri Danii Hikhani | |
| 33. | श्री प्रशांत विश्वकर्मा/ | निरीक्षक / Inspector |
| | Shri Prashant Vishwakarma | |
| 34. | श्री शिव पूजन कुमार/ | निरीक्षक / Inspector |
| | Shri Shiv Pujan Kumar | |
| 35. | श्री एस. राजा/ Shri S. Raja | निरीक्षक / Inspector |
| 36. | श्री एस. गोबी / Shri S. Gobi | निरीक्षक / Inspector |
| 37. | श्री प्रशांत कुमार चौधरी/ | निरीक्षक / Inspector |
| | Shri Prashant Kumar Choudhary | |
| 38. | श्री भूपेंदर एस. जम्जयाल/ | निरीक्षक / Inspector |
| | Shri Bhupender S. Jamjyal | |
| 39. | श्री एम कालीराज/ | निरीक्षक / Inspector |
| | Shri M Kaliraj | |
| 40. | श्री शशि कुमार मिश्रा/ | वरिष्ठ कर सहायक/ STA |
| | Shri Shashi Kumar Mishra | |
| 41. | श्री अजय कुमार/ | कर सहायक/ TA |
| | Shri Ajay Kumar | |
| 42. | श्री नितीश कुमार/ | कर सहायक/ TA |
| | Shri Nitish Kumar | |
| 43. | श्री अनुज कुमार / | कर सहायक/ TA |
| | Shri Anuj Kumar | |

अध्यक्ष महोदय ने सीमा शुल्क गृह में आयोजित की गयी राजभाषा समिति की बैठक में शामिल सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। बैठक की सुरुवात अध्यक्ष के द्वारा राजभाषा के दैनिक कार्यलयीय कार्यों में महत्व तथा आवश्यकता पर दिए गए व्याख्यान से हुआ। अध्यक्ष महोदय ने व्याख्यान में बताया की केंद्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों में राजभाषा का कार्यान्वयन अपने उच्च चरण में है और सुझाव दिया की सीमा शुल्क गृह को राजभाषा के कार्यान्वयन में तीव्र गित की जरुरत है।

The Chairman welcomed the participants of OLIC meeting held at Custom House. The OLIC meeting commenced with a detailed lecture by the Chairman about the importance and need for implementing the official language in the day-to-day official work. The chairman further briefed that implementation of the official language is in advance stage in other Central Government Offices and suggested that Custom House need to move in fast pace in the implementation.

तत्पश्चात सदस्यों द्वारा राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिए गए महत्वपूर्ण बिन्दुओं तथा सुझावों विमर्श हेतु रखा गया एवं निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये गये ।

Thereafter, fresh points and suggestions made by the members for effective implementation of official language were taken up for discussion and the following resolutions were passed.

01. राजभाषा अधिनियम, 1963 धारा 3(3)में अन्तर्विष्ट सभी दस्तावेजों को शत प्रतिशत 100% द्विभाषी होनी चाहिए, इसका निश्चय ही अनुपालन किया जाना चाहिए

As per the Section 3(3) of The Official Language Act, 1963, documents issued under this section should be 100% in Billingual Form only.

02. राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का जवाब सिर्फ हिंदी में ही दिया जाना चाहिए

As per the Rule 5 of The Official Language Rules, 1976 – All the letters received in Hindi should be replied only in Hindi.

03. हिंदी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सभी बैठक समयानुसार निश्चित रूप से आयोजित किया जाना चाहिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन भी साल में कम से कम एक बार आयोजित किया जाना चाहिए जिसमे की हिंदी प्रशिक्षण का कार्यक्रम निश्चित रूप से समन्वित हो

OLIC Meeting should be conducted regularly . Hindi Workshop should be organised for the training of Officers for working Knowledge of Hindi.

04. आयुक्तालय में उपयोग में लायी जानेवाली सभी रबर की मुहरें द्विभाषी स्वरुप में होना चाहिए.

All the Rubber Stamps used in the Commissionerate may be made in Bilingual.

05. सभी अधिकारीयों के नाम पत्र द्विभाषी होने चाहिए जिसका ऊपरी हिस्सा हिंदी में और निचला हिस्सा अंगरेजी में होना चाहिए , ध्यान रहे की हिंदी के अक्षरों का आकार अंग्रेजी के अक्षरों से छोटा नहीं होना चाहिए.

All the Officers Name Plate should be made in Bilingual, as Upper portion in Hindi Language and Lower Portion should be in English. The Hindi font should not be shorter than English font.

06. राजपत्रित अधिकारीयों / अराजपत्रित कार्यकारी अधिकारीयों के द्वारा उपयोग में लायी जानेवाली रबर की मृहरें भी दविभाषी होने चाहिए.

All the Rubber Stamps used by our Gazetted Officers and Non-Gazetted Executive officers should be Bilingual.

07. आयुक्तालय के कुछ अनुभागों जैसे प्रसाशनिक / स्थापना / खाता / प्रशिक्षण / बिभाग इत्यादि , जहाँ पर हिंदी में काम करनेवाले अधिकारी या कर्मचारी हैं तो उनको आदेश द्विभाषी स्वरुप में जारी जारी करना चाहिए.

For the certain sections of this Commissionerate such as Administration/ Establishment/ Accounts/ Training Cell etc. where officers /employees have working knowledge of Hindi, the orders should be issued in Bilingual.

08. कार्यालय में उपयोग में लायी जाने वाली सभी लेटर हेड द्वभाषी स्वरुप में होनी चाहिए। इन् द्विभाषी लेटर हेड पर अधिकारी के हस्ताक्षर हमेशा हिंदी भाषा में होनी चाहिए।

Signature of the Officers/ Staffs should be in Hindi in their official work. All the official letter Head should be printed in Bilingual format and the practice of the signatures on such Letter Head should be done in Hindi at least.

09. टिप्पण / नोट शीट द्विभाषी होनी चाहिए। ऊपर का भाग हिंदी में और निचे का भाग अंग्रेजी में होना चाहिए.

The Note Sheet on the file must be written in Bilingual form. Upper part should be in Hindi and the lower should be in English.

10. त्रैमासिक हिंदी प्रगति रिपोर्ट सभी अनुभागों द्वारा सही समय पर 7 दिनों के अंदर (ओ एल आई सी) अनुभाग को जमा किया जाना चाहिए। रिपोर्ट **ओ एल आई सी अनुभाग** के इ-मेल आई. डी. E-mail ID: hindirajbhashachttn@gmail.com में भी भेजे जा सकते हैं.

Quarterly Progress Report for Hindi (Official Language) from all the Sections of this Commissionerate should be submitted within one week after receiving the U.O. Note from the OLIC – Hindi Section for ascertain to send the QPR to Directorate General of Inspection on time. The report may be sent to "OLIC-Section" E-mail ID: hindirajbhashachttn@gmail.com from different Sections through their official e-mail ID.

11. अर्धवार्षिक हिंदी राजभाषा रिपोर्ट - टी. ओ. एल. आई. सी. , टुटिकोरिन को समय पर भेजने के लिए सभी अन्भागों से निश्चित त्रैमाशिक अविध के अंदर रिपोर्ट ओ.एल. आई. सी. अन्भाग को जमा किया जाना चाहिए.

To submit the Half Yearly Report regarding Hindi (Official Language) to TOLIC , Tuticorin, the quarterly report may be submitted by each and every sections on time.

12. प्रत्येक त्रैमाशिक हिंदी राजभाषा बैठक में सभी अनुभागों के अधिकारी/ कर्मचारी जो की हिंदी में काम करने की दक्षता रखते हैं , वे अवश्य ही बैठक में शामिल होने चाहिए.

In every Quarterly Meeting for Hindi (Official Language), the officers / staffs who are fluent in Hindi as working Knowledge other than Official members should also attend the meeting for suggestion for the implementation of usage of HINDI in official work.

13. हिंदी राजभाषा कार्यान्वयन समिति , सीमा शुल्क गृह, टुटिकोरिन में सभी सदस्य अधिकारीयों को अत्यावशयक रूप से त्रैमाशिक बैठक में हिस्सा लेना चाहिए.

The Official Language Implementation Committee members should necessarily attend the Quarterly meeting.

14. अध्यक्ष के द्वारा निर्णय लिया गया की सीमा शुल्क गृह के बी -विंग भवन में भी एक शव्द (त्रिभाषी) प्रतिदिन बोर्ड पर लिखा जाना चाहिए

It was decided to have one word in trilingual on Board of "B"-Wing in Custom House, Tuticorin also.

15. सीमा शुल्क गृह कार्यालय के मुख्य द्वार का नाम पट्ट (पूर्ण पता के साथ) द्विभाषी स्वरूप में लगाया जाना चाहिए

The sign board of our office Custom House: Tuticorin should be replaced with Bilingual form with complete address (in Hindi as well as English).

16. कार्यालय भोजनालय में भोजन के समय हिंदी संगीत का परिचालन किया जाना चाहिए ताकि हिंदी के कुछ शब्दों को सिखने की इच्छा जागृत हो सके

In our office canteen, the Hindi Music should be played to encourage the learning of Hindi words among our official.

17. प्रत्येक महीने के किसी भी एक बुधवार को हिंदी चलचित्र का परिचालन , कार्यालय अविध के समाप्त होने के बाद , कांफ्रेंस हॉल में किया जाना चाहिए तािक अहिन्दी भाषी अधिकारीयों / कर्मचारियों के बीच हिंदी सिखने की इच्छा जागृत हो सके

Every month, on any one Wednesday after official hours, any Hindi Movie should be displayed at conference hall to encourage the Hindi Language amongst Non-Hindi officials.

18. हिंदी में कार्य करनेवालों कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू किया जाना चाहिए ताकि हिंदी की उपयोगिता को बढ़ावा मिल सके

The incentive scheme should be implemented to encourage the usage of Hindi in our day-to-day official work.

(हस्ताक्षरित/- Sd/-) (सुरेश नंदनवार)/ SURESH NANDANWAR अपर आयुक्त / ADDITIONAL COMMISSIONER

(प्रति) To, सभी अनुभाग प्रमुख , सीमा शुल्क गृह, टुटिकोरिन/ All Section Heads, Custom House, Tuticorin.

प्रतिलिपि/ Copy Submitted to:

- 1. म्ख्य आय्क्त (निवारक), सीमा श्ल्क म्ख्य आय्क्त का कार्यालय (निवारक) , तिरुचिराप्पल्ली The Chief Commissioner of Customs (Preventive), Tiruchirappalli.
- 2. महानिदेशक , निरिक्षण महानिदेशालय , सीमा शुल्क व् केंद्रीय उत्पाद शुल्क , डी -ब्लॉक , आई। पी। एस्टेट दिल्ली 110002

The Director General, Directorate of Inspection, Customs & Central Excise, D-Block, I.P.Estate, New Delhi-110002

3. आयुक्त , केंद्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्त का कार्यालय , चेन्नई -1 आयुक्तालय , 26/1 महात्मा गांधी रोड , चेन्नई-600034.

The Commissioner, O/O: The Commissioner of Central Excise, Chennai-1 Commissionerate, 26/1, Mahatma Gandhi Road, Chennai-600034.

- 4. प्रशाशनिक अधिकारी , नराकास , भरी पानी संयत्र , डाकघर -भा पा सं कॉलोनी , टुटिकोरिन The Adminnistrative Officer, TOLIC, Heavy Water Plant, HWP Colony PO, Tuticorin-628007.
- 5. उपनिदेशक , राजभाषा विभाग क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण -पश्चिम) केंद्रीय भवन , ब्लॉक सी -1 सातवीं मंजिल , सी एम इ जेड पी ओ कोचीन -682037 केरल The Deputy Director, Department of Official Language Regional Implementation Office (South-West) Kendriya Bhawan, Block- C-1 7th Floor, CSEZ PO COCHIN-682037 (Kerala)